

Total No. of pages : 32

पृष्ठों की कुल संख्या : 32

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

CLASS-XI EXAMINATION, 2024

(Paper - II)

ACCOUNTANCY

(Compulsory)

(MCQ Type)

Time : 1 Hour

Full Marks : 40

समय : 1 घंटा

पूर्णांक : 40

GENERAL INSTRUCTIONS / सामान्य निर्देश :

1. Before answering carefully verify all information related to the candidate, printed on Page 2 of the OMR Answer Sheet. If the printed information belongs to any other candidate, then inform the Invigilator immediately and get it replaced.

उत्तर देने से पूर्व परीक्षार्थी से संबंधित ओ० एम० आर० उत्तर-पत्रक के पृष्ठ 2 पर मुद्रित सभी सूचनाओं की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। यदि मुद्रित सूचनाएँ किसी अन्य परीक्षार्थी की हों, तो बीक्षक को तुरंत सूचित कर उसे बदल लें।

2. Put in your full signature on the OMR Answer Sheet in the space provided.

आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें।

3. There are 40 Multiple Choice Questions in this Question Booklet.

इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहु-विकल्पीय प्रश्न हैं।

4. All questions are compulsory. Each question carries 1 mark. No marks will be deducted for wrong answer.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की है। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा।

VN (11)/II/3322

JAC

Read the instructions provided on page 1 of the OMR Answer Sheet carefully and do accordingly.

OMR उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर प्रदत्त सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें।

6. Four options (A, B, C, D) are given for each question. **You have to darken duly the most suitable answer on your OMR Answer Sheet.** Use only Blue or Black Ball-Point Pen. The use of Pencil is not allowed.

प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A, B, C, D) दिये गये हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को आप अपने OMR उत्तर पत्रक पर ठीक-ठीक गहरा काला करें। नीला या काला बॉल-प्वाइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है।

7. Before leaving the examination hall, **hand over the OMR Answer Sheet to the invigilator.** You are allowed to take the question booklet with you.

परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिये। प्रश्न पुस्तिका आप अपने साथ ले जा सकते हैं।

Adhere to the instructions provided in the OMR Answer Sheet very carefully otherwise your OMR Answer Sheet will be invalid and it will not be evaluated.

OMR उत्तर पत्रक पर दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए अन्यथा आपका OMR उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जाँच नहीं की जायेगी।

1. The meaning of Book-keeping is

- (A) keeping books
- (B) keeping books in almirah
- (C) recording business transactions in the books of accounts
- (D) all of these

पुस्तपालन का अर्थ है .

- (A) पुस्तकों को रखना
- (B) पुस्तकों को आलमारी में रखना
- (C) व्यापारिक लेन-देन का हिसाब पुस्तकों में रखना
- (D) इनमें से सभी

2. All of the following are the functions of accounting *except*

- (A) Measurement
(B) Decision making
~~(C) Forecasting~~
(D) . Posting

निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय

- (A) परिमाणांकन के (B) निर्णय के
(C) पूर्वानुमान के (D) खतौनी के

3. Which of the following is not a fixed asset ?

- (A) Furniture (B) ~~Prepaid expenses~~
(C) Land (D) Machinery

निम्न में से कौन-सी स्थायी सम्पत्ति नहीं है ?

- | | |
|------------|-------------------|
| (A) उपस्कर | (B) पूर्णदरा व्यय |
| (C) भूमि | (D) मशीनरी |

4. Current liability is

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (A) Creditors | (B) Debentures |
| (C) Long-term loan | (D) None of these |

चालू दायित्व है

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (A) लेनदार | (B) ऋणपत्र |
| (C) दीर्घकालीन ऋण | (D) इनमें से कोई नहीं |

5. The meaning of concept of going concern is

- (A) Business will close shortly
- (B) Business has just started
- (C) Continuity of business
- (D) None of these

चालू व्यवसाय की अवधारणा से आशय है

- (A) व्यवसाय शीघ्र ही बन्द हो जायेगा
- (B) व्यवसाय का प्रारंभ अभी-अभी हुआ है
- (C) व्यवसाय का चलते रहना
- (D) इनमें से कोई नहीं

6. Accounting principles are generally based on

- (A) subjectivity
- (B) practicability
- (C) convenience in recording
- (D) imagination

लेखांकन के सिद्धान्त सामान्यतः आधारित होते हैं

- (A) वस्तुनिष्ठता पर
- (B) व्यावहारिकता पर
- (C) अभिलेखन में सुगमता पर
- (D) संकल्पना पर

7. Accounting standard is

- (A) a policy document
- (B) a mode of conduct
- ~~(C)~~ both (A) and (B)
- (D) none of these

लेखांकन प्रमाण है

(A) नीतिगत प्रलेख

(B) आचार संहिता

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

8. Accounting standard ensures financial statement to be

(A) reliable

(B) credible

(C) consistent

(D) all of these

लेखांकन मानक से वित्तीय विवरण में आती है

(A) विश्वसनीयता

(B) प्रामाणिकता

(C) एकरूपता

(D) इनमें से सभी

9. First step in accounting process is

- (A) Preparation of Trial Balance
- (B) Identification of transactions
- (C) Recording in the books of original entry
- (D) Posting to ledger

लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम कदम है

- (A) तलपट तैयार करना
- (B) लेनदेनों की पहचान
- (C) प्रारम्भिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना
- (D) खाता बही में खतौनी करना

10. Cash basis of accounting is adopted by

- (A) Profit making organisations
- (B) Not for profit organisations
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of these

लेखांकन का रिकॉर्ड आधार अपनाया जाता है

- (A) लाभकारी संस्थाओं द्वारा
- (B) अलाभकारी संस्थाओं द्वारा
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

11. Source documents used for cash sales is

- (A) Cash memo (B) Invoice
(C) Cash receipt (D) Debit note

नकद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्रोत प्रलेखन है

- (A) कैशमेमो (B) बीजक
(C) नकद रसीद (D) नामपत्र

12. Accounting equation is related to

- (A) only assets
(B) only liabilities
(C) Asset, liabilities and capital
(D) None of these

लेखांकन समीकरण का सम्बन्ध है

- (A) केवल सम्पत्तियों से
- (B) केवल दायित्वों से
- (C) सम्पत्ति, दायित्व तथा पूँजी से
- (D) इनमें से कोई नहीं

13. If owner's capital is Rs. 50,000, liability is Rs. 30,000 and fixed assets are Rs. 70,000, then what is the value of current assets ?

- (A) Rs. 10,000
- (B) Rs. 40,000
- (C) Rs. 60,000
- (D) Rs. 1,00,000

यदि स्वामी की पूंजी 50,000 रु० हो, दायित्व 30,000 रु० हो और स्थायी सम्पत्तियाँ 70,000 रु० हैं, तो चालू सम्पत्तियों का मूल्य क्या है ?

- (A) 10,000 रु० (B) 40,000 रु०
(C) 60,000 रु० (D) 1,00,000 रु०

14. The first stage of Double Entry System is

- (A) Original records (B) Posting
(C) Classification (D) Trial Balance

दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था है

- (A) प्रारम्भिक लेखा (B) खतौनी
(C) वर्गीकरण (D) शेष परीक्षण पत्र

15. "Debit the receiver and credit the giver" is applicable to

- (A) Personal Account (B) Real Account
(C) Nominal Account (D) None of these

“पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा” लागू होता है

- (A) व्यक्तिगत खाता में (B) वास्तविक खाता में
(C) नाममात्र खाता में (D) इनमें से कोई नहीं

16. Prepaid expenses account is a

- (A) Nominal Account
(B) Real Account
(C) Personal Account
(D) None of these

पूर्वदत्त व्यय खाता है

- (A) नाममात्र खाता (B) वास्तविक खाता
(C) व्यक्तिगत खाता (D) इनमें से कोई नहीं

17. Goods worth Rs. 1,000 taken by proprietor for personal use should be credited to

- (A) Sales A/c (B) Purchase A/c
(C) Expenses A/c (D) None of these

1,000 रु० मूल्य का माल स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया, इसे जमा किया जाना चाहिए

- (A) विक्रय खाते में (B) क्रय खाते में
(C) व्यय खाते में (D) इनमें से कोई नहीं

18. The process of recording transactions in a journal is termed as

- (A) Casting (B) Journalising
(C) Recording (D) Posting

रोजनामचा में लेनदेन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं

- (A) निक्षेपण (B) रोजनामचाकरण
(C) अभिलेखन (D) खतौनी

19. Cash column of the two-column Cash Book always has

- (A) Credit Balance
(B) Debit Balance
(C) Both (A) and (B)
(D) None of these

दो खाने वाली रोकड़ बही के रोकड़ खाने का सदैव ही होता है

- (A) जमा शेष (B) नाम शेष
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

20. The balance of Petty Cash book is

- (A) A liquid asset (B) A liability
(C) An expense (D) An income

खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है

- (A) तरल सम्पत्ति (B) दायित्व
(C) व्यय (D) आय

ELVN (11)/II/3322

JAC

21. The imprest system pertains to

- (A) Purchases Book (B) Sales Book
(C) Cash Book (D) Petty Cash Book

पेशगी प्रणाली का सम्बन्ध है

- (A) क्रय बही से (B) विक्रय बही से
(C) रोकड़ बही से (D) खुदरा रोकड़ बही से

22. Posting is done in

- (A) Journal (B) Ledger
(C) Both (A) and (B) (D) None of these

खतौनी की जाती है

(A) रोजनामचे में

(B) खाताबही में

(C) (A) और (B) दोनों में

(D) इनमें से कोई नहीं

23. Number of columns in the Journal is

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

रोजनामचा में खानों की संख्या होती है

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

ELVN (11)/II/3322

JAC

24. Purchases Book is used to record

- (A) All purchases of goods
- (B) All credit sales of goods
- (C) All credit purchases of goods
- (D) All credit purchases of assets

क्रय बही का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है।

- (A) माल के सभी क्रयों को
- (B) माल के सभी उधार विक्रयों को
- (C) माल के सभी उधार क्रयों को
- (D) सभी उधार सम्पत्तियों के क्रयों को

XC-ACT-(COMP.)-C

25. A ledger is a

- (A) Subsidiary Book (B) Principal Book
(C) Memorandum Book (D) None of these

खाताबही है

- (A) सहायक बही (B) प्रधान बही
(C) स्मारिका बही (D) इनमें से कोई नहीं

26. Debit Balance of a Nominal Account indicates

- (A) Income (B) Expenses
(C) Asset (D) Liability

ELVN (11)/II/3322

JAC

नाममात्र खाते का डेबिट शेष दर्शाता है

- (A) आय (B) व्यय
(C) सम्पत्ति (D) दायित्व

27. Bank Reconciliation Statement is prepared by

- (A) Businessman
(B) Banker
(C) Auditor
(D) None of them

बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है

- (A) व्यवसायी द्वारा (B) बैंकर द्वारा
(C) अंकेक्षक द्वारा (D) इनमें से कोई नहीं

XC-ACT-(COMP.)-C

28. When Balance as per Cash Book is given, then which of the following will be deducted ?

- (A) Bank Commission
- (B) Interest allowed by Bank
- (C) Dividend collected by Bank
- (D) None of these

जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो, तो निम्नांकित में से किसे घटाया जायेगा ?

- (A) बैंक कमीशन
- (B) बैंक द्वारा दिया गया ब्याज
- (C) बैंक द्वारा लाभांश की वसूली
- (D) इनमें से कोई नहीं

ELVN (11)/II/3322

JAC

29. Suspense Account is opened for the purpose of balancing

- (A) Personal Account (B) Real Account
(C) Nominal Account (D) Trial Balance

उचन्त खाता खोलने का उद्देश्य है

- (A) व्यक्तिगत खाता को सन्तुलित करना
(B) वास्तविक खाता को सन्तुलित करना
(C) नाममात्र खाता को सन्तुलित करना
(D) तलपट को सन्तुलित करना

30. Trial Balance is a

- (A) Account (B) Statement
(C) Information (D) Summary

XC-ACT-(COMP.)-C

तलपट एक है।

(A) खाता

(B) विवरण

(C) सूचना

(D) सारांश

31. A businessman pays Rs. 1,000 as College fees of his son. This will be debited to

(A) Drawings A/c

(B) Expenses A/c

(C) Cash A/c

(D) None of these

एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1,000 रु० कॉलेज फीस चुकाई। इसे डेबिट करेंगे

(A) आहरण खाता में

(B) व्यय खाता में

(C) रोकड़ खाता में

(D) इनमें से कोई नहीं

32. Debiting A's account instead of B's account is an error of

- (A) Omission (B) Commission
(C) Principle (D) None of these

B के खाता की जगह A का खाता डेबिट करना अशुद्धि है

- (A) भूल-चूक की (B) लेखा सम्बन्धी
(C) सिद्धांत की (D) इनमें से कोई नहीं

33. Under fixed Instalment method amount of depreciation goes on
<https://www.jharkhandboard.com>

- (A) Decreasing (B) Increasing
(C) Constant (D) All of these

स्थायी किस्त विधि में हास की राशि

- (A) घटती है (B) बढ़ती है
(C) स्थिर रहती है (D) इनमें से सभी

34. Which of the following is depleted ?

- (A) Land (B) Goodwill
(C) Machinery (D) Coal Mines

निम्नलिखित में से कौन रिक्त होती है ?

- (A) भूमि (B) ख्याति
(C) मशीनरी (D) कोयला खदान

35. The residual value and useful life of an asset are

- (A) Estimated (B) Actual
(C) Calculated (D) Constant

सम्पत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवनकाल होते हैं

- (A) अनुमानित (B) वास्तविक
(C) परिकलित (D) स्थिर

36. Reserves are created from

~~(A)~~ Profit and Loss Account

(B) Profit & Loss Appropriation Account

(C) Capital

(D) All of these

संचय बनाया जाता है

- (A) लाभ-हानि खाता से (B) लाभ-हानि नियोजन खाता से
(C) पूंजी से (D) इनमें से सभी

37. Capital Reserve is created from

- (A) Profit (B) Capital Profit
(C) Capital (D) All of these

पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है.

- (A) लाभ से (B) पूंजी लाभ से
(C) पूंजी से (D) इनमें से सभी

38. Closing stock is appearing in the Trial Balance. It is shown in the financial statement

- (A) In Balance Sheet
- (B) In Profit & Loss A/c
- (C) In Trading A/c
- (D) In Trading A/c and Balance Sheet

तलपट में अन्तिम रहतिया को दिखाया जा रहा है। इसे वित्तीय विवरण में दिखाते हैं

- (A) आर्थिक चिह्न में
- (B) लाभ-हानि खाता में
- (C) व्यापारिक खाता में
- (D) व्यापारिक खाता और आर्थिक चिह्न में

39. Outstanding Expenses are that

(A) which will not be paid (B) which have been paid

(C) which will be paid (D) none of these

अदत्त व्यय वह है

(A) जो चुकाया नहीं जायेगा (B) जो चुकाया जा चुका है

(C) जो चुकाया जायेगा (D) इनमें से कोई नहीं

40. Goods given away as sample

(A) will be added to purchases

(B) will be subtracted from purchases

(C) will be added to sales

(D) none of these